

UP Board Notes Class 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत

Chapter 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना Bhautik Bhugol Ke Mool Siddhant

→ परिचय (Introduction):

- पृथ्वी की उत्पत्ति की भाँति पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी मानव के लिए एक पहेली बनी हुई है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुँच सका है और न ही पहुँचने की सम्भावना है।
- पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सम्बन्ध में हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत ही सीमित है।
- पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर ही समझा जा सकता है।
- पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्य रूप से भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है।

→ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्रोत (Direct and Indirect Source):

- पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोतों में ठोस धरातलीय चट्टानें अथवा वे चट्टानें हैं जिनको हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। खनन, प्रवेधन व ज्वालामुखी उद्भार प्रत्यक्ष जानकारी के अन्य स्रोत हैं।
- पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोतों में गहराई के साथ बढ़ता तापमान, घनत्व व दबाव, उल्काएँ, गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकीय क्षेत्र तथा भूकम्प सम्बन्धी क्रियाएँ आदि सम्मिलित हैं। पृथ्वी के केन्द्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक व भूमध्यरेखा पर कम होता है। अलग-अलग स्थानों पर मिलने वाली गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता गुरुत्व विसंगति के रूप में जानी जाती है।

→ भूकम्प (Earthquake):

- भूकम्प एक प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो समस्त दिशाओं में फैलकर भूकम्प लाती हैं।
- पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस केन्द्र से भूकम्पीय ऊर्जा निकलती है, उसे भूकम्प का उद्भम केन्द्र अथवा अवकेन्द्र के नाम से जाना जाता है।
- धरातल का वह बिन्दु जो कि उद्भम केन्द्र के निकटतम होता है, अधिकेन्द्र कहलाता है। अधिकेन्द्र पर ही सर्वप्रथम तरंगों को महसूस किया जाता है।

→ भूकम्पीय तरंगें (Earthquake Waves) :

- भूकम्पीय तरंगों का अभिलेखन भूकम्पमापी यंत्र द्वारा किया जाता है जिसे 'सीसमोग्राफ' के नाम से जाना जाता है।
- जब भूकम्प अपने उद्भम केन्द्र से आरम्भ होता है तो तीन प्रकार की तरंगें उठने लगती हैं
 - 'P' तरंगें
 - 'S' तरंगें
 - 'L' तरंगें।

- 'P' तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। 'P' तरंगें गैस, तरल एवं ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं जबकि 'S' तरंगें केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं।
- भूकम्पीय तरंगों के संचलन से चट्टानों में कम्पन उत्पन्न होता है।
- प्राथमिक तरंगों से कम्पन की दिशा तरंगों की दिशा के समानान्तर ('P' तरंगें) होती हैं, जबकि द्वितीयक तरंगें ('S' तरंगें) ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कम्पन पैदा करती हैं।
- धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी मानी जाती हैं।
- धरातल पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई भी भूकम्पीय तरंग सीसमोग्राफ यंत्र पर अभिलेखित नहीं होती, उन्हें 'भूकम्पीय छाया क्षेत्र' के नाम से जाना जाता है।
- भूकंप अधिकेन्द्र से 105° से 145° तक का क्षेत्र P व S तरंगों का भूकम्प छाया क्षेत्र होता है।

→ भूकम्प के प्रकार (Types of Earthquakes):

- उत्पत्ति के कारणों के आधार पर भूकम्प कई प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं
 - विवर्तनिक भूकम्प,
 - ज्वालामुखीजन्य भूकम्प,
 - नियात भूकम्प,
 - विस्फोटजन्य भूकम्प,
 - बाँधजनित भूकम्प आदि।
- भ्रंशन के कारण विवर्तनिक, खानों के ढहने से नियात व जल रिसाव से बांधजन्य भूकंप उत्पन्न होते हैं।

→ भूकम्प की माप (Measurement of Earthquakes):

- भूकम्पीय तीव्रता का मापन 'रिक्टर(रिएक्टर) स्केल' पर किया जाता है। इस मापनी के अनुसार भूकम्प की तीव्रता 0 से 10 तक होती है।
- भूकम्प के आघात की तीव्रता अथवा गहनता को 'मरकेली स्केल' पर मापा जाता है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है।

→ भूकम्प के प्रभाव व आवृत्ति (Effects and Frequency of Earthquakes):

- भूकम्प से जन-धन की बहुत अधिक हानि होती है।
- भूस्खलन, हिमस्खलन, बाँधों का टूटना, आग लगना, इमारतों का गिरना, सुनामी आदि भूकम्प के मुख्य हानिकारक प्रभाव हैं।
- भूकम्प की आवृत्ति निश्चित नहीं होती। भ्रंशन की दशा वाले भागों में सर्वाधिक भूकम्प आते हैं।

→ पृथ्वी की संरचना (Interior of the Earth):

- पृथ्वी की संरचना के तीन भाग हैं
 - भू-पर्फटी,
 - मैंटल,
 - क्रोड।
- भूपर्फटी ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है।

- मैंटल की गहराई 2900 किमी. तक मिलती है, इसका ऊपरी भाग दुर्बलतामंडल कहलाता है।
- क्रोड का विस्तार 2900 किमी. से पृथ्वी के केन्द्र तक है यह निकिल व लोहे से बना है।

→ ज्वालामुखी (Volcano):

- ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख तथा तरल चट्टानी पदार्थ व लावा धरातल तक पहुँचता है।
- उद्धार की प्रकृति एवं धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी के कई प्रकार हैं
 - शील्ड ज्वालामुखी,
 - मिश्रित ज्वालामुखी,
 - ज्वालामुखी कुंड,
 - बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र,
 - मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी।

→ ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ (Volcanic Landforms):

- ज्वालामुखी से अनेक आन्तरिक व बाहरी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है।
- ज्वालामुखी उद्धार के फलस्वरूप निकलने वाले लावा के ठण्डे होने पर आग्रेय शैलों का निर्माण होता है।
- लावा के भू-पटल के भीतर ही ठण्डे होने से कई आकृतियाँ बनती हैं जिनमें बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सिल एवं डाइक आदि प्रमुख हैं।

→ पृथ्वी (The Earth): सौरमण्डल का वह ग्रह जिस पर जीवन संभव है। यह नीला ग्रह भी कहलाता है।

→ चट्टान (Rock): साधारण बोलचाल की भाषा में किसी ठोस पिंड को शैल या चट्टान कहा जाता है। भूगोल में चट्टान का पारिभाषिक अर्थ होता है स्वाभाविक निक्षेप का वह पिंड जिससे भूः पृष्ठ का ठोस भाग बना है, चट्टान कहलाता है।

→ स्थलमंडल (Lithosphere): भूपर्फी का 200 किमी. तक का भाग। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है।

→ ज्वालामुखी (Volcano): पृथ्वी की आन्तरिक परत मैंटल से जलवाष्य, गैस, धूलिकणों, धुओं आदि के नालीनुमा रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया।।

→ लावा (Lava): पृथ्वी के आन्तरिक भागों में स्थित मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है तो इसके जमाव को लावा कहते हैं। इसके जमने से कठोर आग्रेय शैलों का निर्माण होता है।

→ मिट्टी (Soil) असंगठित चट्टानों का चूर्ण जो भूपर्फी की ऊपरी सतह पर मिलता है।

→ मैग्मा (Magma): धरातल के नीचे तप्त, पिघली अवस्था में लाल रंग के तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है तो इसे लावा कहते हैं।

→ बहिर्जात प्रक्रियाएँ (Exogenic Processes): पृथ्वी के धरातल पर अथवा उसके निकट होने वाली प्रक्रियाओं से सम्बन्धित एवं उन प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित भूः आकृतियों से सम्बन्धित क्रियाएँ बहिर्जात क्रियाएँ कहलाती हैं। इन प्रक्रियाओं से धरातल पर नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है।

→ अन्तर्जात प्रक्रियाएँ (Endogenic Processes): पृथ्वी के आन्तरिक भाग में उत्पन्न होने वाली ये प्रक्रियाएँ धरातल पर असमानता उत्पन्न करती हैं। इन प्रक्रियाओं या बलों की उत्पत्ति चट्टानों के प्रसार तथा सिकुड़न के परिणामस्वरूप होती है। ये भूपटल के नीचे मैग्मा द्वारा संचालित होती हैं।

→ भूगर्भ (Interior): पृथ्वी का आन्तरिक भाग।

→ भूर्पटी (Crust): पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है।

→ क्रोड (Core): पृथ्वी की सबसे आन्तरिक परत जो 2900 किमी. से पृथ्वी के केन्द्र तक मिलती है।

→ प्रवेधन (Drill): छेद करना।

→ महासागर (Ocean): जलराशि के विशाल संचयन स्थल।

→ उल्का (Meteorite): आकाश से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड, इन्हें टूटते तारे या लूका भी कहते हैं।

→ भूमध्यरेखा (Equator): 0° अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं।

→ गुरुत्व विसंगति (Gravity anomaly): पृथ्वी के अलग: अलग स्थानों पर मिलने वाली गुरुत्वाकर्षण की मिलता को गुरुत्व विसंगति कहते हैं। यह हमें भूर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है।

→ भूकम्प (Earthquake): साधारण भाषा में भूकम्प का अर्थ है-पृथ्वी का कम्पन। भूः पर्पटी की चट्टानों में अचानक संचरण होने के कारण भूः पर्पटी या प्रावार (mantle) में किसी बिन्दु पर लगने वाले झटके या झटकों के क्रम को भूकम्प कहते हैं।

→ खंश (Fault): जब भूपटल के दो भागों के बीच ट्रूटन एवं विखण्डन की क्रिया होती है तो उसे खंश कहते हैं। यह कार्य सामान्यतया भूकम्प के कारण होता है।

→ भूकम्पीय तरंगें (Earthquake Waves): भूकम्प के उत्पत्ति केन्द्र से बाहर की ओर फैलने वाली तरंगों को भूकम्पीय तरंगें कहते हैं। जैसे: जैसे ये तरंगें केन्द्र से दूर होती जाती हैं, इनकी शक्ति व तीव्रता में कमी आती जाती है।

→ उद्भम केन्द्र (Focus): पृथ्वी के अन्दर जहाँ से भूकम्प की तरंगों का आविर्भाव होता है, वह स्थान भूकम्प का उद्भम केन्द्र कहलाता है। इसे अवकेन्द्र या भूकम्प मूल भी कहते हैं।

→ अधिकेन्द्र (Epicentre): उद्भम केन्द्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर का बिन्दु अधिकेन्द्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में, भूतल पर स्थित वह स्थान जहाँ पर सर्वप्रथम भूकम्पीय तरंगों का अनुभव होता है, उसे अधिकेन्द्र या भूकम्प केन्द्र कहते हैं। अथवा भूतल पर वह बिन्दु जो उद्भगम केन्द्र के समीपतम होता है,

अधिकेन्द्र कहलाता है।

→ भूकम्पमापी यंत्र (Seismograph): प्रघाती (Shock) तरंगों को मापने वाले यंत्र को भूकम्प मापी यंत्र कहते हैं। भूकम्प की तीव्रता और परिमाप को रिक्टर पैमाने एवं संशोधित मरकेली पैमाने पर मापा जाता है।

→ प्रघात (Shock): भूकम्प के कारण जब धरातल पर कम्पन होता है तो उसे प्रघात कहते हैं।

→ भूगर्भिक तरंगें (Body Waves): वे तरंगें जो भूकम्प के उद्भव केन्द्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान उत्पन्न होती हैं तथा पृथ्वी के आन्तरिक भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, भूगर्भिक तरंगें कहलाती हैं।

→ धरातलीय तरंगें (Landscape Waves): भूगर्भिक तरंगें एवं धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नवीन तरंगों को धरातलीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों का भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। अधिक गहराई पर ये तरंगें लुप्त हो जाती हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं।

→ परावर्तन (Reflection): भूकम्पीय तरंगों का मार्ग में आने वाले अवरोध या टकराव के कारण लौटने की प्रक्रिया।

→ आवर्तन (Refraction): किसी कारण से तरंगों के मार्ग की दिशा में परिवर्तन होना अथवा अन्य कोई ऊर्जा वहन करने वाली तरंग कम घने से अधिक घने माध्यम से तिरछी होकर गुजरती हैं तो इसे आवर्तन या अपवर्तन कहते हैं।

→ प्राथमिक तरंगें (Primary Waves): धरातल पर सर्वप्रथम पहुँचने वाली भूकम्पीय तरंगों को प्राथमिक तरंगें या 'P' तरंगें कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये तरंगें सबसे अधिक तीव्र होती हैं। ये गैस, ठोस व तरल तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। इनकी औसत गति 8 किमी. प्रति सैकण्ड होती है।

→ द्वितीयक तरंगें (Secondary Waves): पृथ्वी के धरातल पर 'P' तरंगों के कुछ समय अन्तराल के बाद पहुँचने वाली भूकम्पीय तरंगों को द्वितीयक तरंगें या 'S' तरंगें कहते हैं। ये तरंगें जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान होती हैं। ये तरंगें केवल ठोस पदार्थ में ही चलती हैं, इनकी गति प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा कम होती है।

→ भूकम्पीय छाया क्षेत्र (Earthquake shadow zone): धरातल पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ कोई भी भूकम्पीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकम्पीय छाया क्षेत्र कहा जाता है।

→ विवर्तनिक भूकम्प (Tectonic earthquake): पृथ्वी के आन्तरिक भाग में होने वाली हलचलों के कारण उत्पन्न होने वाले भूकम्प विवर्तनिक भूकम्प कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में 'भूपटल' में भ्रंशन के कारण शैलों में बदलाव से उत्पन्न भूकम्प विवर्तनिक भूकम्प या भ्रंशमूलक भूकम्प कहलाते हैं।

→ नियात भूकम्प (Collapse Earthquake): खनन क्षेत्रों में कभी: कभी अत्यधिक खनन करने से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है। जिससे हल्के झटके महसूस किये जाते हैं। इन्हें नियात भूकम्प कहा जाता है।

→ विस्फोट भूकम्प (Explosion Earthquake): परमाणु एवं रासायनिक विस्फोटों के कारण भूमि में उत्पन्न होने वाले कम्पन को विस्फोट भूकम्प कहते हैं।

→ बाँधजनित भूकम्प (Reservoir induced Earthquake): जो भूकम्प बड़े बड़े बाँध वाले क्षेत्रों में आते हैं, उन्हें बाँधजनित भूकम्प कहते हैं।

→ रिक्टर स्केल (Richter Scale): भूकम्प की तीव्रता की मापनी। रिक्टर पैमाने पर मापे गए 8 तीव्रता से अधिक के भूकम्प अत्यन्त विनाशकारी होते हैं। इस पैमाने का विकास सन् 1935 में डॉ. चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था।

→ मरकैली स्केल (Mercalli Scale): भूकम्पीय आघात की तीव्रता/गहनता को मापने की इकाई। यह उपकरण संरचनात्मक ध्वनि के परिमाण पर आधारित है। इसमें भूकम्प की गहनता को 1 से 12 के बीच बाँटा गया है। इसका विकास इटली के भूकम्प वैज्ञानिक मरकैली ने 1905 में किया था तथा सन् 1937 में रूपान्तरित किया था।

→ आपदा (Hazard): आपदा का अर्थ है: अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना, जिससे व्यापक भौतिक क्षति होती है तथा जान: माल को इतना नुकसान पहुँचता है कि उपलब्ध सामाजिक एवं आर्थिक संसाधन सामान्य स्थिति को बहाल करने हेतु पर्याप्त नहीं होते हैं।

→ भूस्खलन (Land Slides): सामान्य अर्थ में पर्वतीय ढाल के सहारे किसी चट्टान का गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिसकना भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन या जमीन का खिसकना दुनिया की बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। यह एक विनाशकारी आपदा है जिससे जान और माल का नुकसान होता है। दूसरे शब्दों में, मिट्टी तथा चट्टानों के ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने एवं गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं।

→ ज्वारीय लहर (Tidal wave): सूर्य और चन्द्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समुद्रों में उत्पन्न होने वाली सागरीय तरंगें, जो ज्वार के समय उत्पन्न होती हैं।

→ पंक स्खलन (Mud Slides): समुद्रों में महाद्वीपीय ढालों पर मिलने वाले असंगठित शैलों के गादनुमा जमाव के खिसकने को पंक स्खलन कहते हैं।

→ मृदा द्रवण (Soil Liquefaction): मृदा को गलाने का कार्य/मृदा का द्रवीकरण।

→ हिमस्खलन (Avalanches): अधिक मात्रा में हिम के संचयन से जब हिम व मिट्टी आदि का ढेर अकस्मात् एवं तीव्र गति से पर्वतों से फिसलकर नीचे आ जाता है तो इसे हिमस्खलन या एवलांश कहते हैं। अनेक बार यह अत्यधिक विनाशकारी होती है।

→ विस्थापन (Displacement): भूपटल में उत्पन्न तनाव के कारण भ्रंश के दो किनारों का किसी निश्चित दिशा में सापेक्षिक संचलन विस्थापन कहलाता है।

→ बाँध (Dam): नदियों पर कृत्रिम संरचनाओं का निर्माण कर पश्चिम (Back water) को संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार की संरचनाओं को बाँध कहते हैं। दूसरे शब्दों में बहते हुए जल को रोकने के लिए खड़ी की गई एक बाधा जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है, बाँध कहलाती है।

→ तटबंध (Levee): नदी के दोनों ओर के किनारों पर मिट्टी के जमावों द्वारा बने लम्बे बन्धों को जो कि कम ऊँचाई के कारक होते हैं, तटबंध कहलाते हैं। ये तटबंध बाढ़ के समय सुरक्षा करते हैं।

→ सुनामी (Tsunami): सुनामी (Tsunami) जापानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों 'सू' यानी बंदरगाह व नामी अर्थात् लहर से बना है। सुनामी एक विशालकाय लहर है जो समुद्र में भूगर्भिक हलचल से उत्पन्न होती है। यह लहर खुले सागरों में तीव्र गति (600 से 1000 किमी. प्रति घण्टे) से चलती है। इनकी तरंग ऊँचाई 15 मीटर तक होती है। दूसरे शब्दों में भूकम्प के कारण सागरीय जल में उठने वाली विशालकाय लहरों को सुनामी कहते हैं।

→ महाद्वीप (Continent): विशाल स्थलमंडलीय भाग महाद्वीप के रूप में जाने जाते हैं।

→ भंगुर (Brittle): भुरभुरा, नाजुक, सहज में टूटने योग्य।

→ मैंटल (Mantle): भूः पृष्ठ और क्रोड के मध्य उच्च घनत्व एवं मोटाई वाली अल्प सिलिक शैलों की परत को मैंटल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, भूगर्भ में पर्फटी के नीचे का भाग मैंटल कहलाता है।

→ मोहो असातत्य (Moho's discontinuity): भूपर्फटी की निचली सतह पर तथा मैन्टल की ऊपरी सतह पर (दोनों के बीच) पायी जाने वाली असमानता को मोहो असातत्य कहते हैं। यह असातत्य या असंबद्धता या अन्तराल महाद्वीपों में 35 किमी. तक तथा महासागरों के नीचे 5 किमी. की गहराई पर पायी जाती है। इसकी खोज एण्ड्रीजा मोहोरोविसिक नामक क्रोशियन भूकम्प वैज्ञानिक ने की थी। जिन्होंने इसे सन् 1909 में प्रस्तुत किया। संक्षेप में इसे मोहो अथवा एम. असंबद्धता भी कहते हैं।

→ दुर्बलतामंडल (Asthenosphere): मैंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलतामंडल के रूप में जाना जाता है।

→ बाहरी क्रोड (Outer core): 2900 किमी. से 5150 किमी. की गहराई पर मिलने वाला तरल अवस्था वाला भाग।

→ आन्तरिक क्रोड (Inner core): 5150 किमी. से पृथ्वी के केन्द्र तक मिलने वाला ठोस अवस्था वाला भाग।

→ निफे (Nife): सीमा परत के नीचे स्थित इस परत का नामकरण निफे (Niffe), निकिल तथा फेरियम के तत्वों के सम्मिश्रण के आधार पर हुआ है।

→ सक्रिय ज्वालामुखी (Active Volcano): जब किसी ज्वालामुखी से गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा आदि लगातार निकलता रहता है, वह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है।

→ ज्वलखण्डाश्मि (Pyroclastic debries): ज्वालामुखी उद्भार द्वारा निकले खण्डमय शैल उत्पाद; जैसे: राख, ज्वालामुखी बम आदि को ज्वलखण्डाश्मि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, लावा में जमे हुए टुकड़ों का मलवा ज्वलखण्डाश्मि कहलाता है।

→ ज्वालामुखी बम (Volcanic bomb): ये बड़े शिलाखण्ड होते हैं। इनका व्यास 32 मिमी. से अधिक होता है। ये लावा के गोलाकार जमाव से बनते हैं।

→ शील्ड ज्वालामुखी (Sheild Volcano): एक विशाल ज्वालामुखी जिसका आकार चपटे गुम्बद के समान होता है तथा जिसका निर्माण तरल बेसाल्टिक लावा के जमाव के कारण होता है। शील्ड ज्वालामुखी या गुम्बदी ज्वालामुखी अथवा परिरक्षक ज्वालामुखी कहते हैं। इस ज्वालामुखी का ढलान कभी: भी 100 डिग्री से अधिक नहीं होता है। इसी कारण यह शील्ड या गुम्बद के आकार का दिखाई देता है। उदाहरण— हवाई द्वीप के ज्वालामुखी।।

→ सिंडर शंकु (Cindar Cone): ज्वालामुखी से निःसृत राख, धूल एवं अन्य पदार्थों के जमाव से निर्मित लघु शंकु। इसकी ऊँचाई कम होती है तथा ढाल अवतल होता है। दूसरे शब्दों में, जब शील्ड ज्वालामुखी से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है तो उसे सिंडर शंकु या राख या भस्म शंकु कहते हैं।

→ मिश्रित ज्वालामुखी (Composite Volcano): भीषण विस्फोट वाले ज्वालामुखी जिनमें लावा के साथ: साथ भारी मात्रा में ज्वलखण्डाश्म पदार्थ व राख धरातल पर पहुँचती है तथा इनका जमाव परतों के रूप में निकास नली के आसपास हो जाता है, तो ऐसे ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी कहलाते हैं।

→ ज्वालामुखी कुंड (Caldera): काल्डेरा स्पेन की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 'कड़ाहा' होता है। ज्वालामुखी उद्धार के समय तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाने से अथवा क्रेटर (ज्वालमाखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार का गर्त) के पास जाने से ज्वालामुखी कुंड (काल्डेरा) का निर्माण होता है। उदाहरण—विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा जापान का आसो है।

→ बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र (Flood Basalt Provinces): जब ज्वालामुखी से अत्यधिक मात्रा में तरल लावा निःसृत होता है तो उसका विस्तार एक बड़े क्षेत्र पर हो जाता है, ऐसे क्षेत्र को बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। तरल लावा का यह प्रवाह सैकड़ों किमी. तक हो जाता है। उदाहरण—भारत का दक्कन ट्रैप।

→ पठार (Pleateau): धरातल पर मिलने वाली ऐसी ऊँची स्थलाकृति जो 600 मी. से अधिक ऊँची हो तथा जिसका शीर्ष चपटा हो।

→ कटक (Ridge): पहाड़ियों और पर्वतों की एक लम्बी श्रृंखला कटक कहलाती है।

→ आग्नेय शैल (Igneous rock): ऐसी शैलें जिनका निर्माण ज्वालामुखी के बाहर फेंके गए लावा से अथवा उष्ण मैग्मा के भूर्पेटी के नीचे ठंडा होने से होता है, आग्नेय शैल कहलाती हैं। उदाहरण—ग्रेनाइट।

→ ज्वालामुखी शैल (Volcanic Rocks): जब लावा धरातल पर पहुँचकर ठंडा होता है तो उससे निर्मित शैलें ज्वालामुखी शैल कहलाती हैं।

→ पातालीय शैल (Plutonic rocks): जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है तो उससे निर्मित शैलें पातालीय शैल कहलाती हैं।

→ अंतर्वेधी आकृतियाँ (Intrusive forms): जब मैग्मा भूः पटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो उससे कई आकृतियाँ बनती हैं, जिन्हें अन्तर्वेधी आकृतियाँ कहते हैं।

→ बैथोलिथ (Batholith): जब मैग्मा का एक बड़ा पिंड भूः पर्फटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है। ऐसी आकृति को बैथोलिथ कहते हैं।

→ अनाच्छादन (Denudation): : : अपक्षय व अपरदन के सम्मिलित रूप को अनाच्छादन कहते हैं।

→ लैकोलिथ (Lacolith): पृथ्वी की सतह के नीचे बने आग्रेय शैलों का एक वृहत टीला, जिसका निचला भाग प्रायः समतल एवं ऊपरी भाग गुंबद के आकार का होता है। जब पृथ्वी के गर्भ से गर्म मैग्मा ऊपर उठता है तो उसके दबाव से मैग्मा के ऊपर स्थित चट्टानें गुम्बद का आकार धारण करके ऊपर उठ जाती हैं तथा उनके खाली स्थल में तरल मैग्मा भर जाता है। यही मैग्मा बाद में ठंडा होकर लैकोलिथ में परिवर्तित हो जाता है।

→ अपपत्रित (Exfoliated): एक प्रकार का भौतिक अपक्षय जिसके द्वारा धरातल से शैलों की परतें उखड़ती हैं। यह क्रिया तापीय प्रभाव के कारण होती है। इसे अपदलन भी कहते हैं।

→ लैपोलिथ (Lapolith): लैपोलिथ जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है: एक छिछला बेसिन। जब लावा का जमाव धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है तो तश्तरीनुमा आकार का निर्माण होता है। इस आकार को लैपोलिथ कहते हैं।

→ फैकोलिथ (Phacolith): ज्वालामुखी उद्धार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्रेय शैल को फैकोलिथ कहते हैं।

→ सिल (Sill): सिल परत के रूप में आग्रेय शैल का समूह होती है। जब लावा का प्रवाह होता है तो लावा का जमाव परतदार अथवा रूपान्तरित शैलों की परतों के बीच हो जाता है। जब इस जमाव की मोटाई अधिक होती है तो इसे सिल कहते हैं परन्तु पतली सिल को शीट कहा जाता है।

→ अपनति (Anticline): भूपटल में अन्तर्जाति बलों से उत्पन्न क्षैतिज सम्पीड़न से शैल स्तर के उन्नतोदर अथवा ऊपर की ओर उठा भाग अपनति कहलाता है।

→ अभिनति (Syncline): भूतल में सम्पीड़न द्वारा बनने वाला वलन का नतोदर अथवा नीचे की ओर वाला भाग अभिनति कहलाता है। जबकि इसके दोनों कटकनुमा भाग अपनति कहलाते हैं।

→ डाइक (Dykes): जब मैग्मा का जमाव दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है तो एक दीवार की भाँति संरचना बनती है जिसे डाइक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी के आन्तरिक भाग में जब मैग्मा का जमाव ऊर्ध्वाधर रूप में होता है तो उसे डाइक कहते हैं।